

प्रेस विज्ञप्ति थाना गीडा जनपद गोरखपुर दिनांक 14.09.2022

रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित ग्रुप-डी की ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा में नकल कराने वाले संगठित सॉल्वर गैंग के 04 सदस्यों को स्वाट टीम गोरखपुर व थाना गीडा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा जनपद के अपराध एवं अपराधियों एवं वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक उत्तरी के कुशल मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज गोरखपुर के निकट पर्यवेक्षण में अति० निरीक्षक जगमोहन राय मय हमराह व प्रभारी स्वाट उ०नि० मनीष यादव मय टीम द्वारा दिनांक 13.09.2022 को रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में एक साल्वर गैंग का खुलासा किया गया, जिसमें पंकज कुमार पुत्र रघुनंदन मिस्त्री निवासी ग्राम भट्टा थाना काशीचक जिला नवादा बिहार द्वारा फर्जी/कूट रचित आधार कार्ड व फर्जी कूट रचित प्रवेश पत्र मिक्सिंग कर फोटो बदल कर दीपचन्द पुत्र रामविलास निवासी सिसवा उर्फ चनकापुर थाना खोराबार जनपद गोरखपुर के स्थान पर साल्वर के रूप में परीक्षा दे रहा था। इन दो के अतिरिक्त इनकी गैंग में शामिल अन्य दो अभियुक्त इन्द्रजीत पासवान पुत्र रामविलास पासवान निवासी कुसली थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर, संदीप पासवान पुत्र रमाकान्त निवासी इब्राहिमपुर थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर को पुलिस हिरासत में लेकर अभियुक्तगण के कब्जे से एक अदद फर्जी/कूट रचित आधार कार्ड फर्जी कूट रचित फर्जी प्रवेश पत्र जिस पर नाम किसी और का है तथा नौ अदद प्रवेश पत्र एवं मिक्सिंग की गयी फोटो व आधार कार्ड की छायाप्रति तथा फर्जी हस्ताक्षर की छायाप्रति तथा मोबाइल स्क्रीनशाट कि छायाप्रति, 02 अदद मोटरसाइकिल तथा पाँच अदद मोबाइल व 70 रुपये नगद बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना स्थानीय पर मु०अ०स० 386/22 धारा 419,420,467,468,471,120 बी भादवि० पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. पंकज कुमार पुत्र रघुनंदन मिस्त्री निवासी ग्राम भट्टा थाना काशीचक जिला नवादा बिहार
2. दीपचन्द पुत्र रामविलास निवासी सिसवा उर्फ चनकापुर थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
3. इन्द्रजीत पासवान पुत्र रामविलास पासवान निवासी कुसली थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर
4. संदीप पासवान पुत्र रमाकान्त निवासी इब्राहिमपुर थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर

बरामदगी:- एक अदद फर्जी/कूट रचित आधार कार्ड फर्जी कूट रचित फर्जी प्रवेश पत्र जिस पर नाम किसी और का है तथा नौ अदद प्रवेश पत्र एवं मिक्सिंग की गयी फोटो व आधार कार्ड की छायाप्रति तथा फर्जी हस्ताक्षर की छायाप्रति तथा मोबाइल स्क्रीनसाँट कि छायाप्रति, 02 अदद मोटरसाइकिल तथा पाँच अदद मोबाइल व 70 रुपये नगद बरामद

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०स० 386/22 धारा 419,420,467,468,471,120बी आईपीसी थाना गीडा गोरखपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. अति०निरीक्षक श्री जगमोहन राय थाना गीडा जनपद गोरखपुर
2. उ०नि० श्री अनूप सिंह चौकी प्रभारी नौसड थाना गीडा जनपद गोरखपुर
3. एसओजी प्रभारी उ०नि० श्री मनीष कुमार यादव
4. हे०कां० राजमंगल सिंह एसओजी
5. हे०कां० रामइकबाल राव एसओजी
6. हे०कां० अरूण कुमार खरवार स्वाट टीम
7. हे०कां० मौसीन खान स्वाट टीम
8. कां० इन्द्रेश कुमार वर्मा स्वाट टीम
9. कां० करूणापति तिवारी स्वाट टीम
10. कां० रवि चौधरी स्वाट टीम
11. हे०कां० शैलेन्द्र यादव थाना गीडा जनपद गोरखपुर
12. का० कुमार रवि थाना गीडा जनपद गोरखपुर